

ट्रैफिकिंग बनाम स्मग्लिंग

मानव ट्रैफिकिंग में किसी प्रकार का श्रम या व्यावसायिक यौन कृत्य पाने के लिए बल प्रयोग, धोखाधड़ी या जबरदस्ती शामिल है, या जिसमें व्यावसायिक यौन कृत्य करने वाले व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से कम होती है।

मानव स्मग्लिंग दस्तावेज-रहित गैर-नागरिकों को यू.एस. में लाकर आप्रवास कानूनों को जानबूझकर हनन करना और पहले से ही यू.एस. में रह रहे दस्तावेज-रहित गैर-नागरिकों का गैरकानूनी परिवहन करना और उन्हें आश्रय देना है।

ये परस्पर बदले जा सकने योग्य शब्द नहीं हैं

स्मग्लिंग परिवहन आधारित है और सीमा के विरुद्ध अपराध है
ट्रैफिकिंग शोषण-आधारित है और किसी व्यक्ति के खिलाफ एक अपराध है

मानव ट्रेफिकिंग की पहचान करना - स्वयं से पूछें:

- क्या पीड़ित के पास अपनी खुद की पहचान और यात्रा के दस्तावेज हैं?
- क्या पीड़ित को इस संबंध में प्रशिक्षण दिया जाता है कि समुदाय के सदस्यों, कर्मचारियों, कानून प्रवर्तन या आप्रवास अधिकारियों से क्या कहा जाए? क्या कोई और पीड़ित की तरफ से बातचीत करता है?
- क्या पीड़ित को किसी एक उद्देश्य के लिए भर्ती किया जाता है लेकिन दूसरे काम में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है?
- क्या पीड़ित की मजदूरी को कर्ज या फीस चुकाने के लिए गैरकानूनी तरीके से काम में लिया जा रहा है? (केवल स्मगलिंग फीस का भुगतान करना ट्रेफिकिंग नहीं माना जाता है।)
- क्या पीड़ित को व्यावसायिक यौन कृत्य करने के लिए मजबूर किया जाता है?
- क्या पीड़ित या उनके परिवार को उनके द्वारा छोड़ने का प्रयास किए जाने पर नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई है?
- क्या पीड़ित को निर्वासन या आपराधिक आरोपों की धमकी दी गई है?
- क्या पीड़ित को नुकसान पहुँचाया गया है, भोजन, पानी, नींद, चिकित्सा देखभाल, या अन्य जीवन आवश्यकताओं से वंचित रखा गया है?
- क्या पीड़ित बिना प्रशिक्षण या निगरानी के दोस्तों या परिवार से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र है?
- क्या पीड़ित 18 साल से कम उम्र का है और व्यावसायिक यौन में शामिल है?
- क्या पीड़ित घटिया आवास में रह रहा है?